



July 19, 2024

The BSE Limited

Corporate Relationship Department Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001

SCRIP CODE: 543066

SECURITY: Equity Shares/Debentures

Dear Sirs,

The National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra-Kurla Complex. Bandra (E), Mumbai - 400 051

SYMBOL: SBICARD

SECURITY: Equity Shares

Re: <u>Disclosure under Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)</u> Regulations, 2015 - Newspaper Publication

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, enclosed herewith copies of newspaper publication published in all editions of 'Business Standard' (English and Hindi), on July 19, 2024, in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, relating to notice of the 26th Annual General Meeting and Information on E-voting and other related information.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For SBI Cards and Payment Services Limited

Payal Mittal Chhabra Company Secretary & Compliance Officer Date of Event: - July 19, 2024; Time: - NA

Panchayat most watched Hindi web series in H1CY24

Film Chamkila attracted maximum eyeballs; non-fiction shows saw surge

he third season of Amazon Prime Video's Panchayat, Heeramandi (Netflix) and Indian Police Force (Netflix) and Indian Police Force (Prime) are the three most watched original streaming shows in Hindi. Amar Singh Chamkila, Murder Mubarak (both Netflix), and Ae Watan Mere Watan (Prime Video) are the three most-watched original Hindi films on streaming. B&B: Bujji and Bhairava (Prime), 90x Amiddle-class biopic (ETV Win) and Ms Perfect (Disney-Hotstar) are on the list for most watched Telugu shows/films and Inspector Rishi (Prime), Heartheat, Uppu Puli Kanana (Disney-Hotstar) for Tamil.

That and more is what Ormax Media's Streaming originals in India—Mid Year Review—released on Thursday this week reveals.


The report looks at the top original shows and films released from January to June 2024 on three parameters:

this week reveals.


The report looks at the top original shows and films released from January to June 2024 on three parameters: viewership, marketing buzz, and content strength.

Viewership is estimated using primary research conducted among audiences across India at a weekly level, projected to the OTT universe. This adds up to about 60,000 people in a year, asys Shailesh Kapoor, CEO, Ormax Media. This is a jump of 20,000 as the Telingu and Tamil markets was added this year.

The lists of the most liked shows or the ones with more buzz differ somewhat but the essential trend remains the same. For instance, though Heeramandi is number three in the list of most watched shows, it slips to number eight in the list of most provided unscripted show. Big Boss OTTSS getting more than half the viewership that Panchayat (S3) got. The worrying part for storytellers and studios is the decline in fiction. The most watched fiction shows his year have lesser viewership compared to the most watched Hindl original in 2023, Farzi (Amazon Pime Video) was watched by 371 million people. Panchayat S3 was watched by 28.2 million people. This despite a larger sample capturing the data.



MOST WATCHED HINDI WEB SERIES (viewership in mn)





MOST WATCHED TELUGU SHOWS/FILMS (viewership in mn) B&B: Bujji and Bhairava #90's - A Middle Class Biopic 3.8 Miss Perfect




MOST WATCHED TAMIL SHOWS/FILMS (viewers

strong in the is proceeding in thing	
Inspector Rishi	4.9
Heart Beat	3.3
Uppu Puli Kaaram	2.9
Pon Ondru Kanden	2.4
Macter/hef India Tamil CO	15



The 2000 Budget presented the roadmap for growth of the Indian IT industry.



50 years of covering the India story.







HONOR 200 SERIES WITH AI-POWERED FEATURES LAUNCHED

China's Honor has launched its 200 series smartphones

- Honor 200 and Honor 200 Pro — in India. These
martphones offer artificial intelligence—powered features like
Magic Portal, which the company said would enhance user's
interaction with the handset by understanding messages and



Apple denies using YouTube videos for training Al

Apple has clarified that its artificial intelligence features, which it calls Apple Intelligence, are not powered by the company's OpenELM AI model. This comes after a report suggested that many tech giants, including Apple, Nvidia and Amazon-backed Anthropic, used material from thousands of YouTube videos to train their Al models. Earlier, in a research paper, Apple had said that it uses "publicly available data' from the web using its web-crawler Apple Bot for Apple Intelligence training.



DYSON'S ONTRAC HEADPHONES **OFFER CUSTOMISABLE DESIGN**

Singapore-based tech company Dyson, known for its household appliances, has launched its maiden high-fidelit headphones called Dyson OnTrac. The audio-only headset cabe customised with interchangeable caps and cushions for a more personalised experience.

OSBI Card

SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES LIMITED

CIN: L65999DL1998PLC093849; Website: www.sbicard.com E-mail ID: investor.relations@sbicard.com

Registered Office: Unit 401 & 402, 4th Floor, Aggarwal Millennium Tower E-1,2,3, Netaji Subhash Place, Wazirpur, New Delhi 110 034, India; Phone: +91 (11) 6126 8100

Corporate Office: 2nd Floor, Tower-B, Infinity Towers, DLF Cyber City, Block 2 Building 3, DLF Phase 2, Gurugram, Haryana 122 002, India; Phone: +91 (124) 458 9803

NOTICE OF THE 26th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 26th Annual General Meeting (AGM) of the Members of SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES LIMITED ("the Company") will be held on Friday, August 9, 2024 at 11:00 A.M (IST) through Video Conferencing ("C") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("The Act") and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with General Circular No. 09/2023 dated September 26, 2023, General Circular No. 01/2022 dated December 28, 2022, General Circular No. 2/2024 (and May 5, 2022, General Circular No. 21/2021 dated January 13, 2021, General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2022, General Circular No. 20/2020 dated April 3, 2020 and General Circular No. 17/2020 atted April 3, 2020 and General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 and other circulars in this regard, Issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "McA Circulars"), and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular No. SEBIHHO/CFD/CPD-Po-2P/P/CIR/2023/16f ated October 07, 2023, Circular No. SEBIHHO/CFD/CD/2/2014 dated Cotober 07, 2023, Circular No. SEBIHHO/CFD/CD/CMD/2/CIR/2023/16f January 15, 2022, Circular No. SEBIHHO/CFD/CD/CMD/2/CIR/2023/16f January 15, 2022, Circular No. SEBIHHO/CFD/CD/CMD/2/CIR/2023/16f January 15, 2024.

In compliance with the aforesaid circulars of MCA and SEBI, the Notice of the AGM and the Integrated Annual Report for

business as set out in the Notice of AGM dated July 16, 2024. In compliance with the aforesaid circulars of MCA and SEBI, the Notice of the AGM and the Integrated Annual Report for the financial year 2023-24 comprising Financial Statements, Board's Report, Auditor's Reports and other documents required to be attached thereto, have been sent by e-mail only, on July 18, 2024 to all those Members of the Company whose e-mail addresses are registered with the Company/Epository Participant(s)/Depositories/the Registrar & Transfer Agents of the Company. The aforesaid documents are also available on the website of the Company at https://www.sbicard.com/en/who-we-are/annual-reports.page and at the relevant sections of the websites of the stock exchanges on which the shares of the Company are listed i.e. BSE Ltd. (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Ltd. (www.nseindia.com), and on the website of National Securities Depository Limited i.e. www.evoting.nsdl.com.

of India Ltd. (www.nseindia.com), and on the website of National Securities Depository Limited i.e. www.evoting.nsdl.com. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) and the MCA and SEBI Circulars, the Company is holding its Annual General Meeting (AGM) through Video Conferencing (VC/) Other Audio Visual Means ('OAVM'). For the said purpose, the Company has engaged the service of National Securities Depository Limited (NSDL) for conducting AGM through VC / OAVM. Further, NSDL has also been engaged for facilitating e-voting to enable the Members to cast their votes electronically using remote e-voting system as well as e-voting during the AGM through to C / OAVM are explained in Notes to the Notice of AGM. The Members attending the AGM through VC / OAVM are explained in Notes to the Notice of AGM. The Members attending the AGM through VC / OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Act.

The remote e-voting facility will be available during the following voting period

End of remote e-voting Thursday, August 08, 2024 (5.00 P.M. IST)

End of remote e-voting: Thursday, August 08, 2024 (5.00 P.M. IST)

A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e., Friday, August 2, 2024, shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting, participation in the AGM through VC/OAVM or e-voting at the AGM. The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time as the same shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The facility for electronic voting system, shall also be made available at the AGM. The Members attending the AGM, who have not cast their votes through remode e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be able to exercise their voting rights at the AGM. The Members who have already cast their votes through remode e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their votes again at the AGM.

If you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password / PIN for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Detalls / Password" or "Physical User Reset Password" option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL or callo 022 - 4885 food.

The shareholders (including individual demat account holders) are requested to follow the process mentioned in Notes to

The process for registration of email addresses/other details is as under:

Pursuant to relevant circulars the shareholders who have not registered their e-mail address and in consequence the notice could not be serviced may temporarily get their e-mail address registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Link Intime India Pvt. Ltd. through the link: https://liiphweb.linkintime.co.in/EmailReg/Email. Register.html and follow the registration process as guided thereafter. Post successful registration for the e-mail, the shareholder would receive soft copy the Notice of AGM and the Integrated Annual Report for the financial year 2023-24 comprising Financial Statements, Board's Report, Auditor's Reports and other documents required to be attached therewith and the procedure for e-voting along with the User ID and Password to enable e-voting for the AGM from NSDL. In case of any queries relating to the registration of e-mail address, shareholder may write to mt.helpdesk@linkintime.co.in and for e-voting related queries you may write to NSDL at available. evoting@nsdl.com.

- in respect of demat holdings with the respective Depository Participant (DP) by following the procedure prescribed by the Depository Participant.
- in respect of physical holding with Company's Registrar and Transfer Agents i.e. Link Intime India Pvt. Ltd. by sending a request in the prescribed form.

Registration of Bank Details:

Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address and Bank account details in your demat account, as per the process advised by your DP. In case of physical holding, please contact the RTA of the Company i.e. Link Intime India Pvt. Ltd.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdi.com or call on 022 - 4886 7000 or send a request at evoting@nsdi.com or contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4'Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbal – 400 013, at the e-mail id – evoting@nsdi.com. who will also address the grievances connected with the voting by electronic means.

Date: July 18, 2024

Payal Mittal Chhabra

नीट के केंद्रवार नतीजे जारी करे एनटीए

उच्चतम न्यायालय ने कहा- याची साबित करें कि बड़े पैमाने पर लीक हुए पेपर

च्यातम न्यायालय ने मुख्यार की मुख्यार की मस्त्रीय परीक्षा एकेंसी (एनटीए) को अभ्यर्थियों की परूचान गुप्त रखते हुए 20 जुलाई की दोष्टर 12 को तक नी-यूजी 2024 के केंद्र और शहर-वार परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई के दौरान मुख्यार की प्रकान न्यायाधीश ही.बाई. चंद्रसूद की अध्यक्षता वाले गिट ने कहा कि नतीजे जारी करते वस्त सभी क्रांत्रों केंद्र पर्वाचन को गुप्त रखना होगा। अदालत ने वाधियों से भी कहा कि तीबार परीक्षा कराने के लिए यह साबित करना होगा कि पर लिए यह साबित करना होगा कि पेपर लीक हुए और पूरी परीक्षा प्रणाली की

लाक हुए आर पूरा परीक्षा प्रणाला की शुचिता प्रभावित हुई है। अदालत ने अपने आदेश में कहा, 'याचियों ने यह में की है कि प्रादि नीट-यूजी 2024 का परिवास वेबसाइट पर प्रकाशित होगा तो इससे पारदर्शिता तो आएगी ही. यह भी पत त्रार्वासी ता जार्गा हो, यह मा पता वल जाएगा कि किस केंद्र पर किस शत्र को कितने नंबर हासिल हुए। शीर्ष अदालत याचिकाओं पर 22

जुलाई को दोबारा सुनवाई करेगी। दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर



उच्चतम न्यायालय परिसर में गरुवार को उपस्थित छात्र-छात्राएँ

पटना से 4 एमबीबीएस छात्र गिरफ्तार

सीबीआई ने नीट-यूजी के प्रश्नपत्र लीक मामले के संबंध में गुरुवार को पटना स्थित एम्स में पढ़ने वाले एमबीबीएस के चार विद्यार्थियों को गिरपतार किया। अधिकारियों ने बताया कि एमबीबीएस के तीसरे वर्ष के तीन छात्रों चंदन सिंह, राहुल अनंत व कुमार शान और दूसरे वर्ष के एक छात्र करन जैन को पूछताछ के गिरपतार किया गया। सीबीआई ने छात्रावास के उनके कमरों को भी सील कर दिया है।

रहे याचियों से न्यायमूर्ति जे.बी.पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की सदस्यता वाले पीठ ने कहा कि इसके लिए उन्हें यह साबित करना होगा कि पेपर व्यापक

स्तर पर व्यवस्थित तरीके से लीक हुआ है। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्नपत्र लोक की घटना पटना और हजारीबाग तक ही सीमित थी तथा

वटना नहीं हुई है। पटना और क्लारीबाग में प्रश्नपत्र कथित तौर पर लोक हो गए, जबकि गोघरा में दावा किया गया कि परीक्षा आयोजित कराने वाले एक व्यक्ति ने कुछ अभ्यधियों की ओएमआर शीट परने के लिए पैसे लिए। सोशल मीडिया मंच 'टेलीग्राम'

साराल माडिया मच टलाग्राम पर प्रश्नपत्र लीक होने के दावों पर सवाल उठाते हुए पीठ ने कहा, 'आपको यह बात ध्यान में रखनी जापका यह बात व्यान में रखना होगीकि ऐसा करने का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर दिखावा करना नहीं था। लोगों ने यह पैसे के लिए किया। इसलिए, यह परीक्षा को बदनाम करने के लिए नहीं था और कोई व्यक्ति पैसे कमाने के लिए ऐसा कर रहा था जो स्पष्ट है। बड़े पैमाने पर लीक के लिए उस स्तर पर संपर्कों की भी आवश्यकता होती है, ताकि आप विभिन्न शहरों में ऐसे सभी प्रमुख विभिन्न शहरों में ऐसे सभी प्रमुख संपकों से जुड़ सकें।' इस मामले की जांच के मुद्दे पर पीठ ने कहा, 'सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई ने हमें जो बताया है कि अगर उसका खुलासा कर दिया जाता है तो इससे जांच पर असर पड़ेगा।' (साथ में एजेंसियां)


टी20 सीरीज में भारत की अगुआई करेंगे सूर्यकुमार

यादन का त्रालकों के खिलाफ 27 जुलाई से शुरू होने वाली तीन मैचों की श्रृंखला के लिए गुरुवार को भारतीय टी20 टीम का कप्तान भारताय टांट0 टाम का कप्तान बनाया गया। एकदिवसीय कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को अगले महीने इसी टीम के खिलाफ एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए टीम में शामिल किया गया। शुभमन गिल को दोनों टीम का उप

सुनम्प गरार क्या दाना हान का उप कप्तान बनाया गया है। विजय हजारे ट्रॉफी में सात अर्थशतक लगाने वाले रियान पराग और दिल्ली के तेज गेंदबाज हर्षित राणा एकदिवसीय टीम में दो नए चेहरे

हैं। टी20 अंतरराष्ट्रीय टीमः सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, रियान पराग, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पंड्या, शिवम दुवे, अक्षर पटेल, वाशिगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, खलील

एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय टीमः रफारपताय कारतिराहेष गुमान रित कारान), गुमान गिल, विराट कोहली, केरल राहुल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, शिवम दुवे, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर, अर्थादीप सिंह रियान पराग खलील अहमद, हर्षित राणा। भा



OSBI Card

एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज़ लिमिटेड

सीआईएन: L65999DL1998PLC093849; वेबसाइट: www.sbio ई-मेल आईडी: investor.relations@sbicard.com

पंजीकृत कार्यालय: यूनिट 401 और 402, चौथा तल, अग्रवाल मिलेनियम टावर, ई-1,2,3, नेताजी सुभाष प्लेस, वज़ीरपुर, नई दिल्ली 110 034, भारत; फ्रोन: +91 (11) 6126 8100

कॉर्पोरेट कार्यालय: दूसरा तल, टावर-बी, इन्फ्रिनिटी टावर्स, डीएलएफ़ सायबर सिटी, ब्लॉक 2 बिल्डिंग 3, डीएलएफ फ़ेज़ 2, गुरुग्राम, हरियाणा 122 002, भारत; फ्रोन: +91 (124) 458 9803

26वीं वार्षिक साधारण सभा और ई-मतदान की सूचना

एतद्वारा सुमित किया जाता है कि एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज सिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 26वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) सुक्रवार, 9 अगस्त, 2024 की प्रातः 11.00 बचें (भारतीय समयानुसार) वीडियों कांकेंप्रिशा (वीसी) अन्य आडियों विचुलत माध्यमें (ओएवीएम) के ज़िए कंपनी अधिनेयम, 2013 ('अधिनेयम') के सभी लाए प्रात्यानों के एक अर्थान के अर्था के बार प्रात्यान के अर्था के सभी लाए प्रात्यानों और उसके अर्थाण्व बनाए यह मिस्मी 2013 ('अधिनेयम') के सभी लाए प्रात्यानों और के इंदिलियम के के स्वार कंपिरेट कार्य मंत्रात्य (एससीए') इंदिलियम के स्वार वार्षित्र के स्वार वार्षित्र के स्वार के के सिर कंपिरेट कार्य मंत्रात्य (एससीए') इंदर जारी किए एए क्रमार 8 अर्थेत 2020, 13 अर्थेत 2024 की एजीएम के सुर्थन के स्वार यह व्यवस्थ 2021, 14 दिसंबर 2021, 5 मई 2022, 2 दिसंबर 2022, 25 दिसंबर 2023 के सामान्य परिपत्र ने, 14/2020, 17/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 2/2022, 01/2022 और 09/2023 और इस संबंध में कॉचिरेट कार्य मंत्रात्य द्वारा इत्तरात्र किए गए क्रमार के प्रात्य किए से समुद्देश के स्वार के सामान्य परिपत्र ने, 14/2020, 17/2020, 02/2021, 19/2021, 3 स्वार 2022, 5 के सामान्य परिपत्र किए सामान्य परिपत्र के साम के सामान्य परिपत्र के सामान्य परिपत्र के सामान्य परिपत्र के सामान्य SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 और SI जारी अन्य परिपत्रों (जिन्हें सामृहिक रूप से 'सेबी परिपत्र' कहा जाता है) के अनुपालन में होगी।

कंपनी (प्रबंधन और व्यवस्थापम) नियम, 2014 (यथा संबोधित) और सेबी (हिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (यथा संबोधित) और एमसीए तथा तिबंधिरपत्रों के साथ पढ़ें जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों और विनियम 44 के अनुसार कंपनी वीडियो कॉन्फेरिसग (बीसी) / अन्य अजियो विज्युअल ताध्यमी (अभिरवीएम) के प्रतिष्ठ अपनी वार्षिक वाधारण सभा (रिष्णीय) आयोजित कर रही है। उनत उद्देश्य से कंपनी ने बीसी / ओबीएम के माध्यम से एजीएम संचाितत करने के रिष्ण ने माध्यम सेब्या किए किए के प्रति के स्वाध के अपना के स्वाध के स्वाध के सिक्य सेब्य की स्वाध ने सिक्य के सेब्य के उपनि पात इत्तेवहाँनिक रूप से बाले हेतु सक्षम बनाने के लिए और साथ है। पीबीएम के पात ईस्तवना के पार्चणी करने हेतु भी एनएसडीएल की सेबाएं ती गई हैं। बीसी / ओएबीएम के ज़रिए एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को सुनना और निर्देखों का विवरण एजीएम की सुनना के नोट्स में बताया गया है। बीसी /

रिमोट ई-मतदान की सविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:

रिमोट ई-मतदान की शुरुआत : मंगलवार, 6 अगस्त, 2024 (भारतीय समयानुसार प्रातः 10 बजे)

रिमोट ई-भतदान की समाप्ति : गुरूवार, 8 अगस्त, 2024 (भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे)

वह व्यक्ति जिसका नाम कर-ऑफ़ तिथि यानी सुकवार, 2 अगस्त 2024 को सदस्यों के रजिस्टर में या डिपोज़िटरी द्वारा बनाए गए हिताधिकारियों के रजिस्टर में रिकॉर्ड किया गया है, केवल उसे चीसी / ओएवीएम के ज़रिए रिमोट ई-मतदान में या एजीएम में ई-मतदान करने की सुविधा का लाभ उठाने का अधिकार होगा। ऊपर उल्लिखित तिथि और समय के बाद रिमोट ई-मतदान की अनुमित नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद एनएसडीएल हारा ई-मतदान प्रणाती को निक्रिय कर दिया जाएगा।

इतेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध करवाई जाएगी। एजीएम में भाग ते रहे ऐसे सदस्य, जिन्होंने ई-मतदान के ज़रिए अपने वोट नहीं डाले हैं और जिन्हें ऐसा करने के लिए प्रतिबंधित नहीं किया गया है, एजीएम में अपने मतदान अधिकारों का निष्पादन कर सकेंगे। ऐसे सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई-मतदान प्रणाली के ज़रिए अपने वोट पहले ही डाल दिए हैं, मीटिंग में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें एजीएम में फिर से वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसने सूचना प्रेषित होने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त किए हैं और कंपनी का सदस्य बन गया है और जो कट-ऑफ़ तिथि को शेयरधारक है, वह evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर लॉग-इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

अगर आपने रिमोट ई-मतदान के लिए एनएसडीएल के साथ पहले ही पंजीकरण कर लिया है, तो आप अपने मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड / पिन का उपयोग अपना वोट डालने के लिए कर सकते हैं। अगर आप अपना पासवर्ड भूत गए हैं तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध उपयोगकर्ता विवरण / पासवर्ड भूत गए या 'भीतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड विकरप का उपयोग करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं या एनएसडीएल से 022 - 4886 7000 पर संपर्क कर सकते हैं। शेयरधारकों (जिसमें व्यक्तिगत डोमेट खाताधारक भी शामिल है) से एजीएम की सुचना के नीट्स में उत्सिखित प्रक्रिया का पालन करने का अनुरोध किया जाता है।

ई-मेल आईडी / अन्य विवरणों के पंजीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

अस्थायी पंजीकरण के लिए:

संबंधित परिपत्नों के अनुसार जिन श्रेपरधारकों ने अपने ई-मेल आईडी हमारे साथ पंजीकृत नहीं किए हैं और इसके परिणामसकर उन्हें सूचना नहीं भेजी जा सकी है, वे भीचे दिए गए लिंक पर जाकर कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफ़र एजेंट 'लिंक इनटाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' द्वारा अपनी ई-मेल आईटी का पंजीकरण करवा सकते हैं https:// liplweb.linkintme.co.in/ Emailkeg/Email_Register.html और इसके बाद बताई गई पंजीकरण प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।

ई-मेल आईडी सफलतापूर्वक पंजीकृत हो जाने के बाद, शेयरधारकों को एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट की सींफट कोपी प्राप्त होगी, जिसमें वित्तीय विदरण, बोर्ड की रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट और उनके साथ अनुतम किए जाने के लिए आवरणक दूसरे दस्तावेश तथा एनएसखीएत की ओर से एजीएम के लिए ई-मतदान में भाग तेने में सक्षम होने हेतु उपयोगकर्ता आईडी व पासवर्ड प्राप्त होंगे। ई-मेल आईडी के पंजीकरण से संबंधित प्रस्तों के लिए शेयरधारक rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर दिख सकते हैं और ई-मतदान से संबंधित प्रश्नों के लिए आप एनएसडीएत की evoting@nsdl.com पर लिख सकते हैं।

यह स्पष्ट किया जाता है कि स्थायी पंजीकरण के लिए, सदस्य कपया अपने ई-मेल आईडी का पंजीकरण:

- डीमैट होल्डिंग्स के संबंध में, डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट द्वारा निर्देशित प्रक्रिया का पालन करके संबंधित डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ करें।
- भीतिक होस्डिंग के संबंध में, कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, यानी की "लिक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड" को अपना आवेदन इस हेतु बनाये गए परिपन्न के ज़रिये भेजें।

कृपया अपने डियोजिस्टी पार्टिसिपेट (डीपी) से संपर्क करें और आपके डीपी द्वारा सुखाई गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमेट अकाउंट में अपनी ई-मेल आईडी और बैंक खाते का विवरण दर्ज करें। भौतिक होस्डिंग के संबंध में, कृपया कंपनी के आरटीए, यानी की 'सिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' से संपर्क करें।

आर आपका कोई प्रस्त है, तो आप www.evoting.nsdl.com पर धेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रस्त (एफएक्यू) और थेयरधारकों के लिए उपतब्ध उपयोगकर्ता मैन्युअत बेख सकते हैं या इस नंबर पर कॉल कर बकते हैं 022 - 4886 7000 या फिर evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेख सकते हैं या सुबी पत्तवी सात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, नेथान विकटोरिटी डिपोफिटरी लिमिटेड, ट्रेंट वर्लं, 'ए विंग, जोंधा तत, कभावा मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बाधट मार्ग, तोअर परेल, मुम्बई - 400 013, से बताए गए ई-मेल आईडी evoting@nsdl.com पर सपर्क कर सकते हैं, जो इतेब्द्रोनिक माध्यमें से किए गए मतदान से जुड़ी शिकायतों का निराकरण भी करेगी।

एसवीआई कार्डस एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के लिए

पायल मित्तल छावड कंपनी सचिव और अनु

वजीरएक्स की सुरक्षा में सेंध

आम बजट से कुछ दिन पूर्व ही भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरएक्स में गुरुवार को सुरक्षा में सेंघ का पता चला जिसमें कथित तौर पर उसके एक वॉलेट से 23.4 क्रोड़ डॉलर किसी अन्य खाते में हस्तांतरित हो गए हैं। वेब3 सुरक्षा फर्म साइवसें ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि एक संदिग्ध पते ने वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों की अदला-बदली की, जबकि ाडाजाटर परस्तपात्या का अस्तानास्थ्यातीत करना जारी अन्य डिजिटल परिसंपित्यों को स्थानांतित करना जारी रखा। वजीरएक्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा में सेंध की पुष्टि को है। कंपनी अस्थायी तर ग्राहकों की निकासी रोक दी है। कंपनी ने अपने बयान में कहा है, 'हम जानते हैं कि हमारे म्ल्टीसिग बॉलेट की सुरक्षा में सेंध लगी है। हमारी टीम पूरे मामले की तपतीश कर रही है। आपकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए रुपये और क्रिप्टो की निकासी को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया क्रिस्टा का निकास तो कराव्याधा तार एस का निकास है! 'फंड निकारने के लिए मस्टीसिंग वॉलेट में दो या उससे ज्यादा 'प्राइवेट की' घेती है। इस मामले पर क्रिस्टो एक्सचेंज कॉइनडीसीएक्स के सह-संस्थापक और पुछ्य कार्य अधिकारी सुमित गुपा ने कहा कि कंपनी के साथ उपयोगकर्ताओं की परिसंपत्तियां सुरक्षित हैं।

कर्नाटक के निजी क्षेत्र में आरक्षण विधेयक पर खरगे की नाराजगी

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने गुरुवार को कहा कि सरकार ने निजी क्षेत्र में कन्नड़ लोगों को आरक्षण देने वाली विधेयक को भ्रम की स्थिति के कारण अगले कुछ स्थिति के कारण अगले कुछ दिनों के लिए टाल दिया है और

ारना का राष्ट्र हाला ह्या र आर आशंकाओं की दूर करने के लिए अगली कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। मगर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने मंत्रिपरिषद में वरिष्ठ साथियों के साथ चर्चा किए बिना इस विधेयक को आगे बढ़ाने पर कर्नाटक के विधेयक को आगे बढ़ाने पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री के खिलाफ नाराजगी जाहिर को है। राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व यहां तक की कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिललाजुंन खरा की भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक, बेंगलुरु में मौजूद खरगे सहित पार्टी के शीर्ष नेताओं के हस्तक्षेप के बाद सिद्धरमैया



ने बुधवार की शाम विधेयक वापस लेने की घोषणा की। कांग्रेस के सूत्र ने सोमवार को राज्य कैबिनेट के समक्ष विधेयक का मसौदा तैयार करने और उसे पेश करने की प्रक्रिया

को मुख्यमंत्री कार्यालय और उनके करीबियों की एकतरफा प्रयास बताया। कांग्रेस के सूत्र ने

प्रथास बताया। कांग्रस कर सूत्र न दावा किया कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री एमबी पाटिल समेत सरकार के अधिकतर मंत्रियों ने शीर्ष नेतृत्व से कहा कि उन्हें भी विधेयक के बारे में कैबिनेट की बैठक के दौ्पन ही पता चला। इस प्रकरण ने कर्नाटक कांग्रेस के भीतर गुटबाजी को उजागर कर दिया, जिसे केंद्रीय नेतृत्व ने लोक सभा चुनावों के खुराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार ठहराया था। सूत्रों का दावा है कि केंद्रीय नेतृत्व को यह शक है कि विधेयक को कथित वाल्मीकि घोटाले जैसे मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए लाया गया था, जिसका सामना सिद्धरमैया सरकार कर रही है।

एमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर सेल

सेल में फिज्लखर्ची से कैसे बचें

ई-कॉमर्स के बढ़ते इस्तेमाल और ऑनलाइन शॉपिंग की सह्लियत के बीच लोगों को साल में चुनिंदा बार आने वाली एमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट की सेल का बेसब्री से इंतुजार रहता है। इस बार एमेजॉन की प्राइम डे और पि की गोट सेल 20 जुलाई को शुरू हो रही है, जिसमें दोनों कंपनियां बेहतरीन डील और छूट जिसमें वीनों कंपनियां बेहतरीन डील और छूट देने का दावा कर रही हैं। ऐसे मौकों पर आने बालों फ्लैश सेल और कुछ समय के लिए मिलने बालें (लिमिटेड टाइम) ऑफर कई बार लोगों को इतना लुभाते हैं कि वे बिना सोचे समझे खरीदारी कर डालते हैं और जरूरत से ज्यादा खर्च की शिकार हो जाते हैं। बैंकनाजार डॉट कॉम के सीईओ आदिल शेट्टी समझा रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा खर्च से कैसे बचा जाए।

सामान और बजट तय करें

ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ऑनलाइन सेल शुरू होने से पहले ही बजट तय कर लेना फिजूलखर्ची से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है। इन सेल में आपको कम कोमत पर सामान खरीदने का सबसे अच्छा मौका मिलता है मगर आप अपने बजट से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। इसलिए पहले ही तय कर लें

कर सकते। इसलिए पहले ही तय कर लें ि के आप किता खर्च कर सकते हैं और उसी ओकड़े पर डटे रहें। खरीदारी के लिए सामान की फेहरिस्त तैयार करना दूसरा कारगर तरीका होता है। अपनी जरूरते समझकर और प्राथमिकता तय कर आप वहीं सामान खरीदेंगे, जो आपके लिए वाकईं जरूरते हैं। उदाहरण के लिए आपको बड़े स्क्रीन बाला टेलिबिजन और एक एयर कंडीमनर खरीदना है। टीवी 1 लाख रुपये का और एए एर संडीमनर खरीदना है। टीवी 1 लाख रुपये का और एए एर संडीमनर खरीदना है। टीवी 1 लाख रुपये का और एए एर संडीमनर रुपये ही हैं। ऐसे में आपको तय करना होगा कि



टीवी या एसी। यह तय करें और उसी के हिसाब से खर्च करें। ऐसा करेंगे तो सोचे-समझे बगैर खर्च करने से बच जाएंगे। सबसे पहले देखिए कि आपको वाकई में किस

चीज की जरूरत है, उसकी लिस्ट बनाएं और उसी के हिसाब से बजट तय कर लें। इससे आप गैर जरूरी सामान खरीदने के लालच से बच जाएंगे। ऑनलाइन सेल के दैरान 'लाइटर्निंग

भानताइन सल क दरा 'लाइटानग' डीला' आती हैं, जो कुछ समय के लिए और सीमित स्टॉक के साथ आती हैं। मौका चूकने से बचने के लिए कई बार लोग हड़बड़ी में इन डील्स का सामान खरीद लेते हैं। सामान तभी खरीदें, जब खराद लत है। सीमान तभा खराद, जब आपको उसकी जरूरत हो, वह सस्ता मिल रहा हो और आपके बजट में हो। अगर आपका बजट कम है और आपको जल्दी से कोई बड़ी खरीदारी

करनी है तो ऐसा सामान खरीदें, जिसे वापस किया जा सके। ऐसे उत्पाद तलाशिए, जिन्हें वापस करना पड़ा तो कंपनी मुफ्त में ले जाए। आपका मन बदला तो ऐसा सामान वापस करना

पैसा

अपको नन बदशा ता एसा सामान वाससे कर आपके लिए आसान हो जाता है। किसी भी सामान की कीमत अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर देखिए और सबसे बढ़िया सौदा कीजिए। कई तरह के खास ऑफर्स के साथ स्पेशल डील देखकर यह मत मान लीजिए। कि इससे कम कीमत पर यह सामान कहीं नहीं

निर्मा इसारा हु दूसरा इन्फोनस पंचसाइट पर ग्री उसके दाम जांचना सही रहता है। यह भी जरूरी है कि किसी सामान पर भारी छूट

देखकर उसे खरीदने मत चल पड़िए। यह भी देखिए कि सामान की गुणवत्ता कैसी है, वह कितना टिकाऊ है और उसकी आफ्टर सेल

संविस कंसी है। अगर आपको अभी कुछ भी खरीदने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है तो वेबसाइट पर बिल्कुल मत जाइए। इंटरनेट या वेबसाइट पर बेवजह जाने वाले लोग भी कई बार बिना सोचे-समझे सामान खरीद डालते हैं। अगर कोई खास समझ सामान खराद आरा हो जगर फाइ खास सामान खरीदने की आपकी योजना नहीं है तो बेवजह चेबसाइट पर जाकर लालच के शिकार न बनें। यदि आपको कैशबैक और रिवार्ड पॉइंट मिल रहे हैं तो सामान खरीदने के लिए क्रेडिट निल रह है से सामान खरीदन के लिए फ्राइट कार्ड का इस्तेमाल करें। इन रिवार्ड पॉइंट का इस्तेमाल करने पर आपके लिए खरीद कुछ सस्ती पड् सकती हैं। इसके अलावा ऐसा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें, जो किसी खास सामान पर बोनस रिवार्ड दे रहा हो।

कौन से क्रेडिट कार्ड दे रहे रिवार्ड

यह जानने का सबसे अच्छा तरीका ई-कॉमर्स यह जानन को सबस अच्छा तराको इन्कामस वेबसाइट पर जाना है। वहां जाकर देख लीजिए कि किस कार्ड पर आपको खाँद के साथ कैशबैक और रिवार्ड मिल रहे हैं। आम तौर पर शीर्ष सरकारी और निजी बैंकों के क्रेडिट कार्ड 5-10 फीसदी कैशबैक देते हैं। कुछ कार्डों पर ज्यादा कैशबैक भी मिल सकता है। शेड़ी की राय ज्यादा केशबैक भी मिल सकता है। शेट्टी की राष्ट्र है कि नो-कॉस्ट इंप्रभाई यानी बिना ब्याज की मासिक किस्तों वाला कार्ड भी इंदेगोल किया जा सकता है। एमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर फिलाइाल आईसीआईसीआई बैंक, एमेजॉन पे आईसीआईसीआई सिटट कार्ड, एसबीआई क्रेडिट कार्ड, एचडीएफसी, आईडीएफसी और ऐसिसस बैंक के क्रेडिट कार्ड पर अच्छी छूट मिल रही है।

तिथि: 18 जुलाई, 2024 स्थान: गुरुग्राम